



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 28.05.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित 02 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में दिनांक 27.05.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में श्रीनगर थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार तिवारी द्वारा गठित की गयी उपनिरीक्षक राजेन्द्र प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कबूतरा डेरा ग्राम सैलामाफ ननौरा से दो प्लास्टिक की पपिया में करीब 30 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब की बरामदगी करते हुये 02 अभियुक्ताओं क्रमशः 1. मन्दाकली पत्नी तन्नू कबूतरा उम्र करीब 45 वर्ष 2.अभियुक्ता मुस्कान पत्नी अच्छे कबूतरा उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं. 84/2022 व मु.अ.सं. 85/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उपनिरीक्षक राजेन्द्र प्रकाश थाना श्रीनगर जिला महोबा
2. का0 लवकुश कुमार
3. म0का0 आरती देवी

### गिरफ्तार अभियुक्ता -

1. मन्दाकली पत्नी तन्नू कबूतरा उम्र करीब 45 वर्ष
2. अभियुक्ता मुस्कान पत्नी अच्छे कबूतरा उम्र वर्ष 27

निवासीगण कबूतरा डेरा सेलामाफ ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

**बरामदगी** -दो प्लास्टिक की पिपिया में करीब 30 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 28.05.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ की गई पैदल गस्त, अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों एवं अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने वाले लोगों से वार्ता कर शासन की मंस्नारुप उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश।**

उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत निर्देश जिसमें अवैध रूप से यातायात मार्ग को अवरुद्ध कर सड़क मार्ग पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2022 को जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा संयुक्त रूप से अपराधों पर नियंत्रण एवं शहर में शांति का माहौल बनाए रखने हेतु थाना पनवाड़ी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ प्रमुख भीड़भाड़ वाले तथा संवेदनशील स्थानों पर पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षित वातावरण की मौजूदगी का संदेश दिया गया।

इस दौरान जिलाधिकारी महोबा, पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी के साथ थाना पनवाड़ी में भारी पुलिस बल के साथ बाजार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में व्यापारियों, दुकानदारों व स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए साथ ही दुकानों एवं सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को सख्त हिदायत देते हुये अतिक्रमण हटाये जाने व भविष्य में अतिक्रमण करने पर कठोर कार्यवाही करने हेतु चेतावनी दी गयी।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 28.05.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना पनवाडी का किया गया अर्दली रुम, लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की कर दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 28.05.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा थाना पनवाडी का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना पनवाडी में लम्बित विवेचनाओं के सन्बंध में विस्तृत रूप से वार्ता करते हुये लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की गई तथा विवेचनाओं का समय से निस्तारण करने हेतु सम्बंधित विवेचकों को निर्देशित किया गया साथ ही जनशिकायतों की सुनवाई कर जाँच करने व विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर देते हुए वांछित अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी करने, आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों एवं शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण, रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने सहित अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के तस्करों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए, इसके साथ ही वर्तमान समय में शासन एवं उच्चाधिकारीग द्वारा जारी आदेशों एवं अभियानों के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र, प्रभारी निरीक्षक पनवाडी श्री शिवआसरे सहित थानास्थानीय के समस्त विवेचकगण/उपनिरीक्षक उपस्थित रहे।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 28.05.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिये सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 28.05.2022 को चतुर्थ शनिवार को थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में थाना पनवाड़ी महोबा में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र व थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे की उपस्थिति में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें लोगों की समस्याओं/शिकायतों को सुनकर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व टीम के साथ समन्वय स्थापित कर मौके पर जाकर समस्या का निस्तारण किया जाये। माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवस का आयोजन जनपद महोबा के समस्त थानों में किया गया, जिसमें फरियादियों की समस्याओं को सुना गया।

थाना समाधान दिवस के अवसर पर द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर सभी थानों में कुल 79 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 68 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी कुल प्राप्त शिकायतों में 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपजिलाधिकारी महोबा की उपस्थिति में थाना कोतवाली महोबा में, क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना श्रीनगर में व प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना चरखारी में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं को सुना गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 28.05.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर चलाए जा रहे माल निस्तारण अभियान के अंतर्गत आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 69 मालों को किया गया निस्तारित-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाए जा रहे माल निस्तारण अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 28.05.2022 को थाना श्रीनगर में माल निस्तारण अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित कुल 69 मालों को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह, आबकारी अधिकारी तथा थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री दिनेश कुमार तिवारी की उपस्थिति में थाना परिसर में थाने की खाली जमीन में नियमानुसार माल विनिष्टिकरण किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 28.05.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना कबरई पुलिस टीम ने गुमशुदा व्यक्ति को बरामद कर परिवारिजनों को किया सुपुर्द..

आज दिनांक 28.05.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर चलाये जा रहे गुमशुदा/अपहता की तलाश एवं बरामदगी अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई सिंह द्वारा उ०नि० श्री सनय कुमार थाना कबरई मय हमराह कां० सुनील कुमार द्वारा गुमशुदा व्यक्ति छिदू कुशवाहा पुत्र बुधुवा कुशवाहा उम्र करीब 65 वर्ष निवासी मु० किदवई नगर कस्वा व थाना कबरई जिला महोबा को सकुशल बरामद किया गया है, जो दिनांक 24.05.2022 को घर से बिना बताये कहीं चले गये थे, जिसके सम्बन्ध में श्री लाला कुशवाहा पुत्र छिदू कुशवाहा निवासी उपरोक्त द्वारा अपने पिता के गुम हो जाने के बाबत थाना हाजा पर गुमसुदगी 05/2022 पंजीकृत करायी गयी थी, आज अपने पिता छिदू कुशवाहा को सकुशल पाकर कबरई पुलिस का सहृदय से धन्यवाद दिया !





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 28.05.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 28.05.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक उमापति मिश्रा थाना चरखारी द्वारा गठित की गयी में उ0नि0 सत्यवेन्द्र भदौरिया के नेतृत्व में टीम ने ग्राम बफरेता के पास से अभियुक्त काशीप्रसाद राजपूत पुत्र सरिया राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम बफरेता थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, जिसपर अभियुक्त के कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की बोरी में 18 अदद क्वार्टर रसभरी ब्राण्ड नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 146/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सत्यवेन्द्र भदौरिया चौकी प्रभारी गौरहारी थाना चरखारी
2. हे0का0 देवीशरण
3. का0 अनपू कुमार रत्ना

### गिरफ्तार अभियुक्त-

काशीप्रसाद राजपूत पुत्र सरिया राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम बफरेता थाना चरखारी जनपद महोबा।

माल बरामदगी- 18 अदद क्वार्टर रसभरी ब्राण्ड नाजायज बरामद होना





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 28.05.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



**पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।**

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । यातायात नियमों के उल्लंघन पर 52 ई-चालान किये गये ।



आज दिनांक 28.05.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।







प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 28.05.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police